

प्रेस नोट दिनांक 16.07.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध असलहा के साथ लोगों को धमकाने वाले एवं थाना सहसों से सक्रिय वांछित

अपराधी को अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना सहसों पुलिस द्वारा अवैध असलहा के साथ लोगों को धमकाने वाले एवं थाना क्षेत्र में सक्रिय एवं वांछित शातिर अपराधी को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.07.2021 को वादी रामनरेश पुत्र स्व० रामभरोसे निवासी हनुमंतपुरा चौराहा बिठौली रोड थाना सहसों द्वारा थाना सहसों पर अभियुक्त लालजीत एवं सोनू पुत्रगण स्व० भगवत सिंह निवासी टेढाडाडा थाना सहसों द्वारा वादी को मकान को बनाते समय वहां पर आकर मकान न बनाने देने व गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी गई थी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना सहसों पुलिस द्वारा तत्काल मु०अ०सं० 84/21 धारा 323,504,506 भादवि बनाम लालजीत एवं सोनू अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त प्रकरण के संबंध में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चकनगर द्वारा थानाध्यक्ष सहसों को अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया । जिसमें कार्यवाही करते हुए थाना सहसों पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त लालजीत को नीबरी तिराहा बिठौली रोड हनुमंतपुरा से गिरफ्तार किया गया एवं शेष अभियुक्त सोनू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना सहसों का सक्रिय एवं शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर थाना सहसों में कई अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लालजीत सिंह गुर्जर पुत्र स्व० भगवत गुर्जर निवासी टेढाडाडा थाना सहसों जनपद इटावा

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 68/16 धारा 60 आबकारी अधि० थाना सहसों
2. मु०अ०सं० 35/19 धारा 323,504,376,511,452 भादवि थाना सहसों
3. मु०अ०सं० 44/19 धारा 323,504,506,325 भादवि थाना सहसों
4. मु०अ०सं० 01/20 धारा 3(1) गुंडा अधि० थाना सहसों
5. मु०अ०सं० 84/21 धारा 323,504,506 भादवि थाना सहसों
6. मु०अ०सं० 85/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों

पुलिस टीम- उ०नि० श्री गंगादास गौतम थानाध्यक्ष थाना सहसों, का० शिवकुमार परिहार, का० रवि कुमार, का० कौशलेन्द्र कुमार ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा